

---

## AVYAKT MURLI

14 / 07 / 72

---

14-07-72 ओम शान्ति अव्यक्त बापदादा मधुबन

अंतिम सेवा के लिए रमतायोगी बनो

जैसे गवर्मेन्ट के गुप्त अनुचर नये-नये प्लैन्स बनाते हैं, कहां भी कोई उल्टा कर्त्तव्य आदि होता है तो उसको चेक करते हैं। वैसे आप भी सभी पाण्डव गवर्मेन्ट के गुप्त अनुचर हो। आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं वा उलटी राह पर चलाने वाले वा मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं उन्हीं के लिए नये-नये प्लैन्स बनाते हो? वह गवर्मेन्ट भी सदैव नई-नई प्लैन्स बनाती है ना, जिससे मिलावट करने वाले उन्हीं की नज़र से बच नहीं पाते हैं। अभी चारों ओर आवाज़ तो फैला दिया है लेकिन यह विद्वान, आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं यथार्थ ज्ञान के बदली अयथार्थ रीति देने, उन्हीं की तरफ अटेन्शन जाता है? एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है। वह कौन निमित्त बन सकता है? साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथा शक्ति पुरुषार्थ करते चल रहे हैं। लेकिन जो आवाज फैलना है वह किन्हीं के द्वारा? शक्तियों का जो अन्तिम गायन है वह क्या इस साधारण जनता के प्रति गायन है? शक्तियों की शक्ति की प्रत्यक्षता इन साधारण जनता द्वारा होगी? जो पोलीटिकल लोग हैं उन्हीं के द्वारा इतना आवाज नहीं फैल सकता क्योंकि आजकल जो भी नेता बनते हैं, इन सभी की बुराइयां जनता जानती है। आजकल प्रजा का प्रजा पर

राज्य है ना। तो नेताओं की आवाज का प्रभाव नहीं है। तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के निमित्त कौन बनेगा? इन गुरुओं की जंजीरों में तो सभी फंसे हुए हैं ना। भले अन्दर में क्या भी हो लेकिन उन्हीं के शिष्य अन्धश्रद्धा से सत्- सत् करने के आदती हैं। नेताओं के पीछे सत्-सत् करने वाले नहीं हैं। तो शक्तियों का जो गायन है वह कब प्रैक्टिकल में आना है? वा उसके लिए अब धरती नहीं बनी है? जैसे गुप्त अनुचर जो होते हैं वह क्या करते हैं? मिलावट वालों को ही घेराव डालते हैं। मिलावट करने वाले बड़े आदमी होते हैं, जिससे गवर्मेन्ट को बहुत प्राप्ति होती है। साधारण के पीछे नहीं पड़ते। उन्हीं के नये- नये प्लैन्स बनते रहते हैं कि किस रीति मिलावट को प्रसिद्ध करें। तो ऐसी बुद्धि चलती है? कि जो सहज प्रजा बनती है उसमें ही सन्तुष्ट हो? प्रभाव पड़ने का जो मुख्य साधन है वह तो प्रैक्टिकल में करना पड़े ना। वह कब होगा? जब पहले बुद्धि में प्लैन्स चलेंगे, उमंग आयेगा कि हमको आज यह करना है। तो अभी वह संकल्प उठते हैं वा संकल्प ही मर्ज हैं? जैसे सर्विस चलती रहती है ऐसे तो प्रजा बनने का साधन है। लेकिन आवाज फैलने का साधन, जिससे प्रत्यक्षता हो, वह प्रैक्टिकल में लाना है। जब विमुख करने वाले सम्मुख आवें तब है प्रभाव। बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आयें तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का, कुमारियों का गायन है। कन्यायें अर्थात् ब्रह्माकुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी। ब्रह्मा- कुमार-कुमारियां तो सभी हैं। कन्याओं द्वारा बाण मरवाये हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आये, सम्मुख शक्तियों को रखा। तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हीं से ही गाया हुआ है। वह उमंग-उत्साह है? क्या सेमीनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन हैं नंबरवार प्रजा बनाने के। कुछ-ना-कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल लाने में अभी से तैयारी करो। पहले तो संकल्प रखो, फिर उसका प्लैन बनाओ, फिर प्लैन से प्रैक्टिकल में आओ। उसमें भी समय तो चाहिए ना। शुरू तो अभी से करना पड़े। जैसे शुरू-शुरू में जोश था कि जिन्होंने हमको गिराया है उन्हीं को ही संदेश देना है। बीच में प्रजा के विस्तार में चले गये। लेकिन जो आदि में था वह अंत में भी आना है। जैसे माया की

जंजीरों से छुड़ाने के लिए मेहनत करते हैं। वैसे यह भी बड़ी जंजीर है और अब तो दिन-प्रतिदिन यह जंजीरें मोहिनी रूप लेते हुए अपनी तरफ खैंचती जा रही हैं वा अल्पकाल की बुद्धि द्वारा प्राप्ति कराते हुए अपनी जंजीर में फंसाते जाते हैं। उन्हों से सभी को कब छुड़ायेंगे? अंतिम प्रभाव का साधन यही है जिसका गायन भी है कि चींटी महारथी को भी गिरा देती है। गायन तो कमालियत का होता है ना। साधरण जनता को सुनाते रहते हो, वह क्या बड़ी बात है। यह तो वह मिलावट वाले भी करते हैं। झूठे लोग भी अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हों के पोल खोल दो। उन्हों को झुकाओ तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिये कुछ बुद्धि चलती है? असत्य को असत्य सिद्ध करो तब तो सत्य की जय हो। जय-जयकार होगी ही तब। फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। इसके लिए प्लैन्स चाहिए, तरीका चाहिए और अन्दर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं, इन्हों के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं। यह अन्दर से उमंग-उत्साह आवे, तब यह काम हो सकता है। यह प्रोग्राम से नहीं हो सकता। किसी को आप प्रोग्राम दो कि यह-यह करो, ऐसे वो नहीं कर सकेंगे। उसमें सामना करने की इतनी शक्ति नहीं आयेगी। अपने दिल से जोश आवे कि मुझे यह करना है, वह प्रैक्टिकल हो सकता है। संकल्प को रचने से फिर प्रैक्टिकल में आ जायेगा। अभी सभी की नज़र कोई कमाल देखने की तरफ है और बिना शक्तियों के यह कार्य पाण्डव अथवा कोई कर नहीं सकता। निमित्त शक्तियों को बनना है। जैसे शुरू-शुरू में रमता योगी माफिक जहां के लिए भी संकल्प आता था, जोश में चल पड़ते थे और यथा शक्ति सफलता भी पा लेते थे। ऐसा ही फिर इस बात के लिए भी रमता योगी चाहिए। प्रजा बनाने में बहुत बिजी हो गये हो और जो रचना रची है उसको पालने में ही समय बीत जाता है। अच्छा।

---

## QUIZ QUESTIONS

---

1 :- अंतिम सेवा के लिये बाबा ने हमें कौन सा योगी बनने के लिये कहा है?

2 :- आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं वा उलटी राह पर चलाने वाले वा मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं उन्हीं के लिए कौन से नये-नये प्लैन्स बनाते हो?

3 :- एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है। वह कौन निमित्त बन सकता है?

4 :- जब पहले बुद्धि में प्लैन्स चलेंगे, उमंग आयेगा कि हमको आज यह करना है। तो अभी वह संकल्प उठते हैं वा संकल्प ही मर्ज हैं?

5 :- लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हीं के पोल खोल दो। उन्हीं को झुकाओ तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिये कैसी बुद्धि चलती है?

### FILL IN THE BLANKS:-

( शक्तियों, बड़े, गायन, बुराइयां, राज्य, धरती, प्रभाव, जंजीरों, आजकल, निमित्त, साधारण, अंधश्रद्धा, गवर्मेन्ट, आवाज, अंदर )

1 जो पोलिटिकल लोग हैं उन्हीं के द्वारा इतना \_\_\_\_\_ नहीं फैल सकता क्योंकि \_\_\_\_\_ जो भी नेता बनते हैं, इन सभी की \_\_\_\_\_ जनता जानती है।

2 आजकल प्रजा का प्रजा पर \_\_\_\_\_ है ना। तो नेताओं की आवाज का \_\_\_\_\_ नहीं है। तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के \_\_\_\_\_ कौन बनेगा?

3 इन गुरुओं की \_\_\_\_\_ में तो सभी फंसे हुए हैं ना। भले \_\_\_\_\_ में क्या भी हो लेकिन उन्हीं के शिष्य \_\_\_\_\_ से सत्- सत् करने के आदती हैं।

4 मिलावट करने वाले \_\_\_\_\_ आदमी होते हैं, जिससे \_\_\_\_\_ को बहुत प्राप्ति होती है। \_\_\_\_\_ के पीछे नहीं पड़ते।

5 नेताओं के पीछे सत्-सत् करने वाले नहीं हैं। तो \_\_\_\_\_ का जो \_\_\_\_\_ है वह कब प्रैक्टिकल में आना है? वा उसके लिए अब \_\_\_\_\_ नहीं बनी है?

सही गलत वाक्यो को चिन्हित करे:-

1 :- इसलिए बाप से भी ज्यादा कुमारों का, कुमारियों का गायन है। कन्यायें अर्थात् ब्रह्माकुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी। ब्रह्मा- कुमार-कुमारियां तो सभी हैं।

2 :- कन्याओं द्वारा बाण मरवाये हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आये, सम्मुख शक्तियों को रखा।

3 :- क्या सेमीनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन हैं नंबरवार वारिस बनाने के। कुछ-ना-कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है।

4 :- जब विमुख करने वाले सम्मुख आवें तब है प्रभाव। बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आयें तो कोई बड़ी बात नहीं है।

5 :- तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित्त है तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हीं से ही गाया हुआ है। वह उमंग-उत्साह है?

---

## QUIZ ANSWERS

---

प्रश्न 1 :- अंतिम सेवा के लिये बाबा ने हमें कौन सा योगी बनने के लिये कहा है?

उत्तर 1 :- बाबा ने कहा है कि :-

- ① बच्चों! अंतिम सेवा के लिये तुम, रमतायोगी बन कर के सेवा करो।
- ② ऐसा ही फिर इस बात के लिये अर्थात् अंतिम सेवा के लिए भी रमता योगी ही चाहिए।
- ③ प्रजा बनाने में भी तुम बहुत बिजी हो गये हो न और जो रचना रची है उसको पालने में ही समय बीत जाता है। इसलिये! तुम रमतायोगी बन कर सेवा करो।
- ④ लेकिन अब तो इससे भी आगे बढ़ना है। अंतिम सर्विस को प्रैक्टिकल में लाने की अभी से तैयारी करो।

प्रश्न 2 :- आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं वा उलटी राह पर चलाने वाले वा मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं उन्हों के लिए कौन से नये-नये प्लैन्स बनाते हो?

उत्तर 2 :- बाबा ने बताया कि :-

- ① कहां भी कोई उल्टा कर्तव्य आदि होता है तो उसको वे चेक करते हैं। वैसे आप भी सभी पाण्डव गवर्मेन्ट के गुप्त अनुचर हो।

② आत्माओं को जो धोखे में फंसाने वाले हैं वा उलटी राह पर चलाने वाले वा मिलावट करने वाले हैं अथवा गिराने के निमित्त हैं उन्हीं के लिए हम गुप्तचर भी नये-नये प्लैन्स बना कर कार्य में लगाते हैं।

③ वह गवर्मेन्ट भी सदैव नई-नई प्लैन्स बनाती है ना, जिससे मिलावट करने वाले उन्हीं की नज़र से बच नहीं पाते हैं।

④ अभी चारों ओर आवाज़ तो फैला दिया है लेकिन यह विद्वान, आचार्य आदि जो निमित्त बने हुए हैं यथार्थ ज्ञान के बदली अयथार्थ रीति देने, उन्हीं की तरफ भी अभी अटेन्शन देना है।

**प्रश्न 3 :- एक द्वारा भी अनेकों को आवाज पहुंचता है। वह कौन निमित्त बन सकता है?**

**उत्तर 3 :-** बाबा कहते हैं कि . आवाज़ फैलाने के निमित्त तो शक्तियाँ ही होंगी।

① साधारण जनता को तो सुनाते रहते हो, उनमें से जो बनने वाले हैं वह अपना यथा शक्ति पुरूषार्थ करते चल रहे हैं।

② लेकिन जो आवाज फैलाना है वह शक्तियों की शक्ति के द्वारा ही फैलेगी, न की इन साधारण जनता के द्वारा फैलेगी।

**प्रश्न 4 :- जब पहले बुद्धि में प्लैन्स चलेंगे, उमंग आयेगा कि हमको आज यह करना है। तो अभी वह संकल्प उठते हैं वा संकल्प ही मर्ज हैं?**

**उत्तर 4 :-** बाबा कहते हैं कि

① अभी पहले तुम्हारी बुद्धि में प्लैन्स चलेंगे, फिर उमंग आयेगा कि हमको आज यह करना है।

② इस प्रकार के संकल्प हमारे मन में सदा उठते रहते हैं और श्रेष्ठ संकल्प भी अभी चलते हैं, वह संकल्प भी अभी इमर्ज हैं। वह संकल्प मर्ज नहीं हुए हैं।

प्रश्न 5 :- लेकिन जो अपने को महारथी समझते हैं उन्हीं के पोल खोल दो। उन्हीं को झुकाओ तब कमाल है। ऐसी कमाल दिखाने के लिये कैसी बुद्धि चलती है?

उत्तर 5 :- बाबा ने कहा कि

① इसके लिए प्लैन्स चाहिए, तरीका चाहिए और अन्दर में वह नशा चाहिए कि हम गुप्त अनुचर हैं, इन्हीं के पोल सिद्ध करना हमारा काम है, हम ही इसके लिए निमित्त हैं।

② असत्य को असत्य सिद्ध करो तब तो सत्य की जय हो। जय-जयकार होगी ही तब, जब असत्य को असत्य सिद्ध करेंगे, फिर इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी।

FILL IN THE BLANKS:-

( शक्तियों, बड़े, गायन, बुराइयां, राज्य, धरती, प्रभाव, जंजीरों, आजकल, निमित्त, साधारण, अंधश्रद्धा, गवर्मेन्ट, आवाज, अंदर )

1 जो पोलिटीकल लोग हैं उन्हीं के द्वारा इतना \_\_\_\_\_ नहीं फैल सकता क्योंकि \_\_\_\_\_ जो भी नेता बनते हैं, इन सभी की \_\_\_\_\_ जनता जानती है।

आवाज़ / आजकल / बुराइयां

2 आजकल प्रजा का प्रजा पर \_\_\_\_\_ है ना। तो नेताओं की आवाज का \_\_\_\_\_ नहीं है। तो एक द्वारा अनेकों तक आवाज करने के \_\_\_\_\_ कौन बनेगा?

राज्य / प्रभाव / निमित्त

3 इन गुरुओं की \_\_\_\_\_ में तो सभी फंसे हुए हैं ना। भले \_\_\_\_\_ में क्या भी हो लेकिन उन्हीं के शिष्य \_\_\_\_\_ से सत्- सत् करने के आदती हैं।

जंजीरों / अंदर / अंधश्रद्धा

4 मिलावट करने वाले \_\_\_\_\_ आदमी होते हैं, जिससे \_\_\_\_\_ को बहु तप्राप्ति होती है। \_\_\_\_\_ के पीछे नहीं पड़ते।

बड़े / गवर्मेन्ट / साधारण

5 नेताओं के पीछे सत्-सत् करने वाले नहीं हैं। तो \_\_\_\_\_ का जो \_\_\_\_\_ है वह कब प्रैक्टिकल में आना है? वा उसके लिए अब \_\_\_\_\_ नहीं बनी है?

शक्तियों / गायन / धरती

सही गलत वाक्यों को चिन्हित करे:- **【✓】** **【✗】**

1 :- इसलिए बाप से भी ज्यादा कुमारों का, कुमारियों का गायन है। कन्यायें अर्थात् ब्रह्माकुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी। ब्रह्मा- कुमार- कुमारियां तो सभी हैं। **【✗】**

इसलिए बाप से भी ज्यादा शक्तियों का, कुमारियों का गायन है। कन्यायें अर्थात् ब्रह्माकुमारियां। इसका मतलब यह नहीं कि कुमारी ही होगी। ब्रह्मा- कुमार-कुमारियां तो सभी हैं।

2 :- कन्याओं द्वारा बाण मरवाये हैं। बाप खुद सम्मुख नहीं आये, सम्मुख शक्तियों को रखा। **【✓】**

3 :- क्या सेमीनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन हैं नंबरवार वारिस बनाने के। कुछ-ना-कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है। **【✗】**

क्या सेमीनार करने में ही खुश हो? यह तो सभी साधन हैं नंबरवार प्रजा बनाने के। कुछ-ना-कुछ कनेक्शन में आते हैं और प्रजा बन जाती है।

4 :- जब विमुख करने वाले सम्मुख आवें तब है प्रभाव। बाकी विमुख होने वाले सम्मुख आयें तो कोई बड़ी बात नहीं है। 【✓】

5 :- तो जब प्रैक्टिकल में शक्ति सेना निमित है तो शक्तियों का जो विशेष कर्तव्य गाया हुआ है वह उन्हीं से ही गाया हुआ है। वह उमंग-उत्साह है? 【✓】